

वन उत्पादकता संस्थान

में हिन्दी पखवाडे एवं राजभाषा हिन्दी दिवस का आयोजन

वन उत्पादकता संस्थान, राँची में दिनांक 01.09.2018 से दिनांक 14.09.2018 तक हिन्दी पखवाडा मनाया गया तथा दि. 14.09.2018 को हिन्दी दिवस के आयोजन के साथ इसका समापन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । इस अवसर पर संस्थान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु हिन्दी राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी । इन कार्यक्रमों में हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी शब्दावली, हिन्दी वाचन एवं स्वरचित काव्यपाठ प्रमुख कार्यक्रम रहे । उपरोक्त कार्यक्रमों में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया ।

हिन्दी पखवाडे का समापन हिन्दी दिवस के आयोजन के साथ हुआ । इस अवसर पर संस्थान के निदेशक द्वारा सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया । समापन कार्यक्रम के दूसरे चरण में शहर के जाने-माने 12 उत्कृष्ट कवियों की उपस्थिति में एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया , जिसका संचालन संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ संजय सिंह ने किया । सम्पूर्ण हिन्दी पखवाडे का व हिन्दी दिवस पर समापन कार्यक्रम का संचालन संस्थान की हिन्दी अधिकारी श्रीमती रुबी सुसाना कुजूर, वैज्ञानिक – सी ने हिन्दी प्रभाग के सहयोग से किया । इस प्रकार संस्थान में हिन्दी पखवाडे व हिन्दी दिवस का आयोजन सफलता पूर्वक किया गया ।

साथ ही हिन्दी भाषा में कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा हिन्दी में किये गए वर्षवार कार्यों के आधार पर हिन्दी पखवाडा के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाने के निर्णयानुसार संस्थान के श्री दीना नाथ पांडे, एवं श्री दिनेश प्रसाद, का चयन कर पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया ।

इस अवसर पर इस कार्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	दिनांक / समय	विजेता
क	"निबंध लेखन" विषय: "पर्यावरण एवं औद्योगिक विकास"	05.09.2018 अपराह्न 4-5 बजे	श्री विभव कुमार ठाकुर – प्रथम श्री दिनेश प्रसाद– द्वितीय श्री करम सिंह मुंडा – तृतीय
ख	हिन्दी टिप्पण	06.09.2018 अपराह्न 4-5 बजे	श्री दिनेश प्रसाद – प्रथम श्री करम सिंह मुंडा – द्वितीय श्री विभव कुमार ठाकुर – तृतीय
ग	हिंदी वाक प्रतियोगिता / (Just a minute)	07.09.2018 अपराह्न 4-5 बजे	श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय– प्रथम श्री पंकज कुमार– द्वितीय श्री सुशीत बनर्जी– तृतीय
घ	स्वरचित कविता पाठ	10.09.2018 अपराह्न 4-5 बजे	श्रीमती किरण दास – प्रथम श्री सुशीत बनर्जी– तृतीय श्री महेश कुमार– तृतीय

ड	क्विज प्रतियोगिता	11.09.2018 अपराह्न 3-5 बजे	<u>प्रथम स्थान</u> श्री आशुतोष कुमार पाण्डेय, श्री परशुराम उपाध्याय, श्री अमित कुमार साहा, श्रीमती किरण दास, रानी सुजाता मिंज, श्री अतनु सरकार <u>द्वितीय स्थान</u> श्री कानाई लाल डे, श्री सुशीत बनर्जी, श्री उमेश कुमार यादव, श्री विभव कुमार ठाकुर, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, श्री दीपक कुमार ठाकुर
---	-------------------	-------------------------------	---





हिन्दी पखवाडे के आयोजन के दौरान हिन्दी प्रतियोगिताएं की झलदकियाँ

